

## ‘स्वच्छ भारत मिशन’ के तहत चंद्रपुर स्टेशन पर ‘स्वच्छता अभियान’ चलाया गया :

अपर मंडल रेल प्रबंधक एवं अपर मुख्य राजभाषा अधिकारी डॉ.जयदीप गुप्ता के नेतृत्व व अध्यक्षता में ‘स्वच्छ भारत मिशन’ के तहत चंद्रपुर स्टेशन पर दिनांक 14 जनवरी, 2015 को ‘स्वच्छता अभियान’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्री एस.के.शुक्ला, वरि.मंडल विद्युत इंजीनियर (टीआरओ), श्रीमती पूर्णिमा सुरडकर, राजभाषा अधिकारी तथा स्टेशन प्रबंधक के साथ-साथ बड़ी संख्या में रेल कर्मचारी व स्थानिक नागरिक उपस्थित थे।



राजभाषा अधिकारी द्वारा भूमिका प्रस्तुत करते हुए स्टेशन परिसर व रेलवे कॉलोनी में की जानेवाली स्वच्छता की जानकारी दी गई तथा रेल परिसर में स्वच्छता के महत्व पर प्रकाश डाला। श्री एस.के.शुक्ला, वरि.मंडल विद्युत इंजीनियर (टीआरओ) ने साफसफाई रखने के बारे में कई बहुमूल्य सुझाव दिए गए। मुख्य अतिथि डॉ.जयदीप गुप्ता, अपर मंडल रेल प्रबंधक एवं अपर मुख्य राजभाषा अधिकारी नागपुर ने सभी रेलकर्मियों, पर्यवेक्षकों को चंद्रपुर स्टेशन, रेलवे कॉलोनी में स्वच्छता रखने के निर्देश दिए और महानगर निगम के साथ मिलकर साफसफाई के उपरांत जमा किए जानेवाले कचरे का निपटान हेतु स्टेशन प्रबंधक को निर्देश दिए और नागरिकों से आह्वान किया कि वे रेल परिसर स्वच्छ रखने में रेल प्रशासन से सहयोग करें।



कार्यक्रम में उपस्थित वरिष्ठ पर्यवेक्षकों से भी चंद्रपुर स्टेशन तथा कर्मचारियों की आवासीय कालोनी में स्वच्छता रखने बाबत सुझाव मांगे गए। इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में स्टेशन परिसर व रेलवे कॉलोनी में हिंदी में बनाए गए आकर्षक बैनर लगाए गए थे। श्रीमती पूर्णिमा सुरडकर, राजभाषा अधिकारी नागपुर ने कार्यक्रम का संचालन किया।

\*\*\*\*